

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी को ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए 2022 का बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड मिला

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 मई, 2022) – ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) ने हाल ही में, अपने 2022 के बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड्स गाला (2022 Business Excellence Awards Gala) की मेजबानी की थी, जहां सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन्स (Smart Solutions) की श्रेणी के अंतर्गत, इसके फ्लीट को इलेक्ट्रिफाई करने के प्रति इसके समर्पण और कार्य के लिए एक अवॉर्ड मिला था।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें शामिल हैं, पैन-कैनेडियन बी.ई.बी. डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ट्रायल (Pan-Canadian BEB Demonstration and Integration Trial) के हिस्से के तौर पर, इसकी बैटरी इलेक्ट्रिक बस (बी.ई.बी.) (Battery Electric Bus) (BEB) ट्रायल के फेज 1 की शुरुआत, पूरी तरह इलेक्ट्रिफाई नई तीसरी ट्रांज़िट फैसिलिटी का, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल का एन्डोर्समेंट और बिल्कुल हाल ही में, कैनेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक (सी.आई.बी.) (Canada Infrastructure Bank) (CIB) के साथ आर्थिक प्रबंध, जो ब्रैम्पटन को अब और 2027 के बीच में, 450 तक बी.ई.बी. (BEB) की खरीद में सहायता करने के लिए, 400 मिलियन डॉलर तक का निवेश प्रदान करेगा।

स्मार्ट सॉल्यूशन्स अवॉर्ड, डिजिटल परिवर्तन में उपलब्धि और श्रेष्ठता के लिए संगठनों को सम्मानित करता है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को, ट्रांज़िट के क्षेत्र में लगातार शिफ्ट्स के लिए प्रतिक्रिया, प्रभावकारिता में सुधार करने हेतु नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीस की रिसर्च, खोज और ग्रहण, मूल्य प्रदान करने और कम्युनिटी के लिए मूल रूप से विकास करने के लिए सम्मानित किया गया था। [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें \(Click here to learn more\)](#)।

### हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड के द्वारा ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के लिए, 2022 का बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड मिलने पर सम्मानित महसूस कर रही है। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, ट्रांज़िट स्पेस में डिजिटल परिवर्तन, लगातार इनोवेशन करने और हमारे शहर को गतिशील रखने के लिए, सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने में लीडर है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को, 2022 के बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड्स में, स्मार्ट सॉल्यूशन्स की श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित करने के लिए, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड का धन्यवाद। हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, टेक्नोलॉजी में प्रगति करने के साथ भविष्य को बेहतर बना रहा है, अन्य म्युनिसिपल्टीज के लिए मिसाल बन रहा है और ब्रैम्पटन को रहने, काम करने और खेलने के लिए और भी बेहतर जगह बना रहा है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की तरफ से मैं, स्मार्ट सॉल्यूशन्स में हमें यह सम्मान देने के लिए, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे हमारी टीम पर बेहद गर्व है, जो हमारे ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हुए, वृद्धि, डिजिटल इनोवेशन और पर्यावरण संबंधी स्थिरता में संतुलन कायम करते हुए – लगातार इंडस्ट्री लीडर बन रही है। जब हम भविष्य पर विचार करते हैं, तो हम प्रगति करने और हमारी कम्युनिटी के लिए डिलीवर करने के अपने तरीके को बेहतर बनाने में मदद के लिए, हमारे लोकल कारोबारियों जैसे सभी स्टैकहोल्डर्स के सहयोग पर भरोसा करते हैं। इस सम्मान के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद और हम हमारी लगातार साझेदारी के लिए उत्साहित हैं।”

- एलेक्स मिलोजेविक (Alex Milojevic), जनरल मैनेजर, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का स्टाफ, ट्रांज़िट के क्षेत्र में लगातार शिफ्ट्स के लिए प्रतिक्रिया करने के प्रति समर्पित है, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रह सकें। हम इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट को, डिजिटल परिवर्तन में स्मार्ट सॉल्यूशन्स के लिए, 2022 का बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड मिलने पर गर्व है।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)